



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 04 पटना, बुधवार, 4 माघ 1945 (श0)
24 जनवरी 2024 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क
	10-13
	14-19

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

9 जनवरी 2024

सं० अ०सं०क०-02-07 / 2023-14—राज्य कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010, पत्रांक-8928, दिनांक-15.11.20217 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-6642, दिनांक-06.07.2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय पत्रांक-3026, दिनांक-09.11.2023 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्त्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक-10.11.2023 को आयोजित की गयी थी, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा संवर्ग के निम्नलिखित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों (मूल कोटि) को 10 वर्षों की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010 के तहत उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान पे-बैंड ₹ 67700-208700/- ग्रेड पे-₹ 6600/- पुनरीक्षित पे० मैट्रिक्स वेतनस्तर-11 में प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	वरीयता क्रमांक (2021 के अनुसार)	नाम	पुनरीक्षित वेतन स्तर-11 (रु० 67700-208700) में स्वीकृत प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ की देय तिथि
1	2	3	4
1.	01	श्री रविशंकर	25.09.2023
2.	02	श्रीमती रश्मि	17.10.2023
3.	03	श्री मो० रिजवान अहमद	25.09.2023
4.	04	श्री सत्येन्द्र त्रिपाठी	25.09.2023
5.	05	श्री उपेन्द्र कुमार यादव	25.09.2023
6.	06	श्री अनीश कुमार सिन्हा	25.09.2023
7.	07	श्री रजनीश कुमार राय	25.09.2023
8.	08	श्री किशोर कुमार आनंद	25.09.2023
9.	09	श्री राजीव रंजन	04.10.2023
10.	10	श्री निरंजन कुमार	25.09.2023
11.	11	श्री शशिभूषण तिवारी	25.09.2023
12.	13	श्री कपिल कुमार	25.09.2023

13.	14	श्री राकेश कुमार	25.09.2023
14.	15	श्री अवधेश कुमार	25.09.2023
15.	17	श्रीमती नीलिमा साहू	25.09.2023
16.	18	श्रीमती जयन्ति	25.09.2023
17.	19	श्री अब्दुल रशीद अंसारी	25.09.2023
18.	20	श्री राहुल कुमार	25.09.2023
19.	22	श्री अनुराग कुमार	25.09.2023
20.	23	श्री मो० खिलाफत अंसारी	25.09.2023
21.	24	मो० साजिद	25.09.2023
22.	25	श्री राघवेन्द्र कुमार दीपक	25.09.2023
23.	26	श्री रतन	25.09.2023
24.	27	श्री अशोक कुमार दास	25.09.2023
25.	28	श्री जितेन्द्र कुमार	25.09.2023
26.	29	श्रीमती सुनीता सोनू	25.09.2023
27.	30	श्री सुबोध कुमार	25.09.2023

2. समिति द्वारा सर्वसम्मति से श्री जटाशंकर पाण्डेय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बक्सर एवं श्री चन्दन कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण इनके मामलों पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया गया।

3. यह वित्तीय उत्क्रमण व्यक्तिगत है तथा इसका वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

4. रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के अन्तर्गत उत्क्रमित वेतन स्तर में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के अधिसूचना सं०-7566, दिनांक-14.07.2010 एवं 3590, दिनांक-24.05.2017 के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा।

5. वित्त विभाग के पत्र संख्या-3ए-वे०पु०-06/2013-7448/वि० दिनांक-05.10.2018 के कंडिका-3 के आलोक में मौलिक नियमावली के नियम 22(1) (क) (i) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु संबंधित पदाधिकारी द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाना है कि वे वित्तीय उन्नयन की तिथि को वेतन निर्धारण करायेंगे अथवा अगले वेतनवृद्धि की तिथि से।

अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अंदर यह विकल्प लिखित रूप से संबंधित पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रधान/महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को देना है।

6. भविष्य में कर्मियों की अर्हता में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डा० अमीर आफाक अहमद फ़ैजी, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

16 जनवरी 2024

सं० ग्रा०वि०- R-503/65/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-174595) -2479032—श्री राजीव कुमार सिन्हा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, करपी (अरवल) के आवास एप प्लस की सूची में शामिल परिवारों को प्रतीक्षा सूची में शामिल कर योजना का लाभ विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नहीं देने, अनावश्यक रूप से

एफ०टी०ओ० लंबित रखने, अपने अधीनस्थ कर्मियों को ससमय कार्य निष्पादन में पूर्णतः विफल रहने एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश-निर्देश का अनुपालन एवं कार्रवाई में रुचि नहीं लेने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-474 दिनांक- 22.04.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

आरोप पत्र में गठित आरोप एवं श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-1568082 दिनांक-13.02.2023 द्वारा श्री राजीव कुमार सिन्हा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, करपी (अरवल) के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया।

अधिरोपित दंड के विरुद्ध श्री राजीव कुमार सिन्हा के द्वारा दिनांक-20.10.2023 को पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य या साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आलोक में पूर्व में निर्गत आदेश को संशोधित किया जाय।

अतः समीक्षोपरांत श्री राजीव कुमार सिन्हा के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नन्द किशोर साह, संयुक्त सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), बिहार, पटना

प्रभार-रिपोर्ट

1 जनवरी 2024

सं० BRLPS/ESTT-PF/1924/22/4224—अधोहस्ताक्षरी में, राहुल कुमार, भा०प्र०से० (2011) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका)-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन-सह-आयुक्त-स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली मिशन) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी०-1018/2022-सा०प्र०-22852 दिनांक-18 दिसम्बर, 2023 के आलोक में विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति के उपरांत आज दिनांक 01.01.2024 के पूर्वाह्न में वर्तमान धारित पदों (अपर सचिव स्तर) से स्वतः प्रभार मुक्त हो रहा हूँ।

(ह०) अस्पष्ट,

भारमुक्त पदाधिकारी।

आदेश से,

राजेश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

1 जनवरी 2024

सं० BRLPS/ESTT-PF/1924/22/4225—अधोहस्ताक्षरी में, राहुल कुमार, भा०प्र०से० (2011) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका)-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन-सह-आयुक्त-स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली मिशन) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी०-1018/2022-सा०प्र०-22852 दिनांक-18 दिसम्बर, 2023 के आलोक में विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति के उपरांत आज दिनांक 01.01.2024 के पूर्वाह्न में वर्तमान धारित पदों (विशेष सचिव स्तर) पर स्वतः प्रभार ग्रहण किया।

(ह०) अस्पष्ट,

भारमुक्त पदाधिकारी।

आदेश से,

राजेश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

संसं0 2/थाना-10-06/2017 गृ0आ0-12127

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा:- वित्त विभाग

पटना, दिनांक 06.10.2023

विषय:- बिहार राज्य में यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के 12 जिलों में पूर्व से सृजित यातायात थानों के अतिरिक्त 28 (अठाईस) जिलों में यातायात थाना के सृजन एवं उनके संचालन हेतु आवश्यक कुल-4215 पदों में से जनसंख्या के अनुपात में पूर्व से सृजित सीधी नियुक्ति वाले 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों के सृजन की स्वीकृति तथा पूर्व से सृजित यातायात थानों के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

राज्य में वर्ष 2020 की अपेक्षा वर्ष 2021 में ब्लैक स्पॉट्स एवं एक्सीडेंट प्रोनजोन में बढ़ोत्तरी पाई गई है। साथ ही यातायात से संबंधित वर्ष 2021 में प्रतिवेदित कांडों की सं0-9550 एवं मृत्यु की सं0-7658 है (रेल जिला को छोड़कर), जबकि वर्ष 2020 में इसकी संख्या क्रमशः 8639 एवं 6699 थी। इस प्रकार वर्ष 2021 में कांडों का 10.55% एवं मृत्यु का 14.32% की दर से वृद्धि का आकलन किया गया है। राज्य में पूर्व से 12 जिलों में 15 यातायात थाना सृजित है। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या एवं यातायात की समस्या को देखते हुए राज्य के प्रत्येक जिला में यातायात नियंत्रण हेतु यातायात थाना का सृजन आवश्यक है एवं पूर्व से सृजित यातायात थानों के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण करने की भी आवश्यकता है। अतएव राज्य में पूर्व से 12 जिलों में सृजित 15 यातायात थानों के अतिरिक्त शेष कुल 28 (अठाईस) जिलों (पुलिस जिला सहित) में यातायात थाना का सृजन तथा पूर्व से सृजित 12 जिलों में पटना एवं गया को छोड़कर शेष सभी जिलों में यातायात थानों का क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण करते हुए सम्पूर्ण जिला किया जा रहा है।

2. राज्य के 28 (अठाईस) जिलों में यातायात थानों के लिए सीधी नियुक्ति वाले पदों (पुलिस अवर निरीक्षक, सिपाही एवं चालक सिपाही) की स्वीकृति पुलिस के सुदृढीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न कोटि के गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या-1674 दिनांक 03.02.2023 द्वारा सृजित 48,447 पदों के अन्तर्गत होगी एवं शेष पदों (पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, आशु सहायक अवर निरीक्षक एवं हवलदार) के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

3. (i) अतएव राज्य में यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के 02 (दो लाख) से अधिक आबादी वाले 23 (तेईस) जिलों:-**किशनगंज, नवादा, सिवान, बक्सर, मधुबनी, जहानाबाद, भभुआ, सुपौल, सहरसा, जमुई, रोहतास, बेतिया, वैशाली, औरंगाबाद, अररिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, लखीसराय, बाँका, खगड़िया, मोतिहारी एवं मधेपुरा** में यातायात थाना के सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-3795 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

क्र0	पदनाम	वेतनस्तर (Level)	पदों की संख्या	पूर्व से सृजित पद गृहविभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या-1674 दिनांक 03.02.2023 द्वारा सृजित 48,447 पदों के अन्तर्गत	स्वीकृति
1	पुलिस उपाधीक्षक	L-9	01X23=23	—	23 (नये पद)
2	पुलिस निरीक्षक	L-7	01X23=23	—	23 (नये पद)
3	पुलिस अवर निरीक्षक	L-6	08X23=184	184	—
4	आशु0 स0अ0नि0	L-5	01X23=23	—	23 (नये पद)
5	हवलदार	L-4	30X23=690	—	690 (नये पद)
6	सिपाही	L-2	120X23=2760	2760	—
7	चालक सिपाही	L-2	04X23=92	92	—
	कुल पद-165X23=3795			3036	759 (नये पद)

(ii) ऊपर वर्णित जिलों के अलावे राज्य के 02 (दो लाख) से कम आबादी वाले शेष बचे 05 जिलों—अरवल, शिवहर, बगहा, शेखपुरा एवं नवगछिया में यातायात थाना के सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-420 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

क्र0	पदनाम	वेतनस्तर (Level)	पदों की संख्या	पूर्व से सृजित पद गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या-1674 दिनांक 03.02.2023 द्वारा सृजित 48,447 पदों के अन्तर्गत	स्वीकृति
1	पुलिस उपाधीक्षक	L-9	01X5=05	—	05 (नये पद)
2	पुलिस निरीक्षक	L-7	01X5=05	—	05 (नये पद)
3	पुलिस अवर निरीक्षक	L-6	04X5=20	20	—
4	आशु0 स0अ0नि0	L-5	01X5=05	—	05 (नये पद)
5	हवलदार	L-4	15X5=75	—	75 (नये पद)
6	सिपाही	L-2	60X5=300	300	—
7	चालक सिपाही	L-2	02X5=10	10	—
	कुल पद-84X5=420			330	90(नये पद)

4. इस प्रकार उपर्युक्त 28 (अठाईस) जिलों में यातायात थाना के लिए पुलिस उपाधीक्षक का 28 पद, पुलिस निरीक्षक-28 पद, पुलिस अवर निरीक्षक-204 पद, आशु सहायक अवर निरीक्षक-28 पद, हवलदार-765 पद, सिपाही-3060 पद एवं चालक सिपाही-102 पद कुल आवश्यक 4215 पदों में से जनसंख्या के अनुपात में पूर्व से सृजित सीधी नियुक्ति वाले 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. उपर्युक्त 28 (अठाईस) यातायात थाना के सृजन एवं उनके संचालन हेतु आवश्यक कुल-4215 पदों में से जनसंख्या के अनुपात में पूर्व से सृजित सीधी नियुक्ति वाले 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों पर होने वाले व्यय की अनुमानित व्यय कुल राशि-37,82,55,100 (सैंतीस करोड़ बिरासी लाख पचपन हजार एक सौ) रुपये मात्र है। व्यय विवरणी संलग्न है। (परिशिष्ट-‘क’)

6. उपर्युक्त राशि की निकासी बजट शीर्ष-2055-पुलिस-109 जिला पुलिस-0001-जिला कार्यकारी दल एवं विपत्र कोड संख्या एन-2055001090001 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक होंगे।

7. उपर्युक्त 28 यातायात थानों का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

8. इसके अतिरिक्त (क) पटना जिला में पूर्व से कार्यरत 03 (तीन) यातायात थानों— (i) गौंधी मैदान यातायात थाना (ii) बाईपास यातायात थाना एवं (iii) सगुना मोड़ यातायात थाना के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण निम्नवत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

क्र० सं०	यातायात थाना का नाम	अधीनस्थ थाना का नाम
1	गाँधी मैदान यातायात थाना (पुलिस उपाधीक्षक, प्रथम)	गाँधी मैदान थाना, पीरबहोर थाना, कदमकुआँ थाना, कोतवाली थाना, बुद्धाकॉलोनी थाना, दीघा थाना, पाटलिपुत्रा थाना, राजीवनगर थाना, सचिवालय थाना, गर्दनीबाग थाना, शास्त्रीनगर थाना, श्रीकृष्णापुरी थाना, हवाई अड्डा थाना, बाढ़ थाना, बख्तियारपुर थाना, मोकामा थाना, अथमलगोला थाना, पंडारक थाना, हाथीदह थाना, घासवरी थाना, मरांची थाना, भदौर थाना, सकसोहरा थाना, बेलछी थाना, सालिमपुर थाना, एन०टी० पी०सी० थाना, साम्यागढ़ ओ०पी० एवं पंचमहला ओ०पी०।
2	बाईपास यातायात थाना (पुलिस उपाधीक्षक, द्वितीय)	फतुहा थाना, दीदारगंज थाना, खुशरूपुर थाना, दनियावा थाना, शाहजहांपुर थाना, नदी थाना, सुल्तानगंज थाना, आलमगंज थाना, खोजेकला थाना, चौक थाना, मालसलामी थाना, अगमकुआँ थाना, बहादुरपुर थाना, बाईपास थाना, मेंहदीगंज थाना, कंकड़बाग थाना, जक्कनपुर थाना, पत्रकारनगर थाना, परसा बाजार थाना, रामकृष्णनगर थाना, गौरीचक थाना, गोपालपुर थाना, मसौढ़ी थाना, भगवानगंज थाना, धनरूआ थाना, पुनपुन थाना, पिपरा थाना एवं कादिरगंज थाना।
3	सगुना मोड़ यातायात थाना (पुलिस उपाधीक्षक, तृतीय)	दानापुर थाना, खगौल थाना, शाहपुर थाना, बिहटा थाना, रूपसपुर थाना, मनेर थाना, फुलवारीशरीफ थाना, बेऊर थाना, नौबतपुर थाना, जानीपुर थाना, पालीगंज थाना, सिगोड़ी थाना, दुल्हनबाजार थाना, रानीतालाब थाना, बिक्रम थाना, खिड़ीमोड़ थाना एवं नेउरा ओ०पी०।

(ख) गया जिला में पूर्व से कार्यरत 02 (दो) यातायात थानों— (i) गया यातायात थाना एवं (ii) बोधगया यातायात थाना के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण निम्नवत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:—

क्र० सं०	यातायात थाना का नाम	अधीनस्थ थाना का नाम
1	नगर यातायात थाना	कोतवाली थाना, सिविल लाईन थाना, विष्णुपद थाना, रामपुर थाना, डेल्हा थाना, मगध मेडिकल थाना, चन्दौती थाना, चाकन्द थाना, बेलागंज थाना, पाईबिगहा थाना, मेन थाना, मुफ्फसिल थाना, बुनियादगंज थाना, बजीरगंज थाना, फतेहपुर थाना, गुरुपा थाना, टनकुप्पा थाना, नीमचक बथानी थाना, अतरी थाना, खिजरसराय थाना, महकार थाना, गेहलौर ओ०पी० एवं सरबहदा ओ०पी०।
2	बोधगया यातायात थाना	बोधगया थाना, चेरकी थाना, मगध वि०वि० थाना, मोहनपुर थाना, टिकारी थाना, मऊ ओ०पी०, पंचानपुर ओ०पी०, कोच थाना, परैया थाना, गुरारू थाना, अलिपुर थाना, आंती थाना, शेरघाटी थाना, बाराचट्टी थाना, आमस थाना, बाकेबाजार थाना, डोभी थाना, रौशनगंज थाना, गुरुआ थाना, धनगाई थाना, इमामगंज थाना, कोठी थाना, डूमरीया थाना, मैगरा थाना, छकरबंधा थाना, भदवर थाना, लुटुआ थाना एवं सोहेल थाना।

(ग) पूर्व से सृजित भागलपुर यातायात थाना एवं 09 (नौ) जिलों (नगर निगम) यथा—मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ (नालंदा), दरभंगा, पूर्णियाँ, आरा (भोजपुर), बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, छपरा (सारण) में यातायात थानों का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला होगा।

13. राज्य में पूर्व से सृजित 12 जिलों में उपर्युक्त वर्णित 15 यातायात थानों के सृजन से संबंधित स्वीकृत्यादेशों में अंकित क्षेत्राधिकार को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

14. उपर्युक्त 28 (अठ्ठाईस) जिलों में यातायात थानों एवं पदों के सृजन तथा पूर्व से 12 जिलों में सृजित 15 यातायात थानों का क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण करने में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे, उप—सचिव।

परिशिष्ट-‘क’

बिहार राज्य में यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के 12 जिलों में पूर्व से सृजित यातायात थानों के अतिरिक्त 28 (अठारह) जिलों में यातायात थाना के सृजन एवं उनके संचालन हेतु आवश्यक कुल-4215 पदों में से जनसंख्या के अनुपात में पूर्व से सृजित सीधी नियुक्ति वाले 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों पर होनेवाले व्यय का अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी :-

क्र०	पदनाम	पदों की सं०	मूल वेतन	वार्षिक व्यय
1	I पुलिस उपाधीक्षक	28	53100	53100X28X12=17841600
	II पुलिस निरीक्षक	28	44900	44900X28X12=15086400
	III आशु सहायक अवर निरीक्षक	28	29200	29200X28X12=9811200
	IV हवलदार	765	25500	25500X765X12=234090000
	कुल	849		योग:- 234090000
2.	महंगाई भत्ता-सभी वेतन के योग का 31%			72567900
3.	चिकित्सा भत्ता-सभी कोटि को 1000 रु० प्रतिमाह-	849X1000X12		10188000
4.	मकान किराया भत्ता-8%			18727200
5.	राशन मनी भत्ता-क्रमांक II से VII तक 3000,	849X3000X12		30564000
6.	वाहन भत्ता-(I) क्रमांक II एवं III को @ 2500 रु० प्रतिमाह-	2500X56X12		1680000
	(II) क्रमांक V को @ 200 रु० प्रतिमाह-	200X765X12		1836000
7.	वर्दी भत्ता-(I) क्रमांक I को @ 12000 रु० वार्षिक	12000X28		336000
	(II) क्रमांक II एवं III को @ 11000 रु० वार्षिक	11000X56		616000
	(III) क्रमांक V को @ 10000 रु० वार्षिक	10000X765		7650000
	कुल योग-			37,82,55,100

(सैंतीस करोड़ बिरासी लाख पचपन हजार एक सौ) रुपये मात्र।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे, उप-सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचनाएं

18 जनवरी 2024

सं० 14/एम7-35/2021-93—अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान अधिनियम-1964 (बिहार राज्य अधिनियम संख्या-06/1989 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 5(1)(c)(h) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा कुलपति, बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा एवं डॉ० बी०एन० प्रसाद, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र एवं समाजिक मानवशास्त्र विभाग, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना को अधिसूचना निर्गत की तिथि से 02 वर्षों के लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में नियंत्रण पर्वद के लिए सदस्य मनोनीत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

18 जनवरी 2024

सं० 14/एम7-35/2021-92—अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान अधिनियम-1964 (बिहार राज्य अधिनियम संख्या-06/1989 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 5(1)(g) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्न 02 व्यक्तियों को अधिसूचना निर्गत की तिथि से 02 वर्षों के लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में नियंत्रण पर्वद के लिए सदस्य मनोनीत किया जाता है।

(I) Prof. (Dr.) PARMA NAND YADAV (Retd.)

S/o Late PRITHVI CHAND YADAV

Fomer Head, University Deptt. of Economics

B.N. Mandal University, Mahepura (Bihar)

(II) Prof. (Dr.) RANA PRATAP SINGH (Retd.)

S/o Late JAINATH SINGH

Fomer Head, University Deptt. of Geography

M.U. BodhGaya (Bihar)

2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

18 जनवरी 2024

सं० 14/एम7-35/2021-94—अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना के शोधार्थियों का निबंधन एवं डिग्री अवॉर्ड आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत होता है। अतः कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में नियंत्रण पर्वद के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

Office Order

The 13th January 2024

No.XI-K-सं०-01/2019-178---In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya vide letter no.-2609, dated- 26.12.2023 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Anugrah Narayan Singh	ADM, Special Programme, Gaya	District Level
2	Sri Nikesh Kumar	DCO, Gaya	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 06.01.2024

(Sd.) Illegible,
Secretary to Commissioner.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 45—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

No. 44—I, **SHROM**, son of Ajay Kumar, Resident of Veer – Bhawan, Road no.2, Chiraiyatand, Khas Mahal, P.O-G.P.O, P.S- Jakkanpur, District-Patna, BIHAR has changed my name to Shrom Shaurya Singh vide affidavit Number 6989 dated 03/07/2023.

SHROM.

सं0 45—मैं विमला झा (**VEMLA JHA**) पति- सुरेन्द्र नाथ झा निवासी- चकसैद पोस्ट-शहबाजपुर पुरैना, थाना - पातेपुर जिला- वैशाली, बिहार शपथ-पत्र संख्या-02 दिनांक 11/08/2023 द्वारा सूचित करती हूँ कि आधार कार्ड सं0-719125812327 में मेरा नाम विमला देवी (**BIMLA DEVI**) दर्ज है जो गलत है। आवासिय प्रमाण पत्र के अनुसार मेरा नाम (**VEMLA JHA**) है जो सही है (**BIMLA DEVI**) विमला देवी एवं (**VEMLA JHA**) विमला झा दोनो नाम एक ही महिला का है वो मैं हूँ। भविष्य में विमला झा (**VEMLA JHA**) के नाम से ही जानी व पहचानी जाऊंगी।

विमला झा (**VEMLA JHA**).

No. 46—मैं, राम कुमारी देवी, पति- स्व. गनौरी सिंह, पता-ग्राम-बिन्दौली, पोस्ट- मसाढ़ी, थाना- गौरीचक, पटना, शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि मेरा आधार- 7131-4842-4098 में मेरा नाम रामकुरी देवी गलत दर्ज है जबकि मेरा सही नाम राम कुमारी देवी है। शपथपत्र- 4180/09.10.2023.

राम कुमारी देवी ।

सं0 47—मैं पुष्पम किशोर, पिता श्री चन्द्रशेखर प्रसाद महतो निवासी मौजा-भरडीहा, पो0-थाना, भगवानपुर जिला-बेगुसराय, (बिहार) शपथ पत्र संख्या 13982@23 दिनांक-21/09/2023 के द्वारा घोषणा करता हूँ कि अब से मैं डॉक्टर पुष्पम किशोर के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

पुष्पम किशोर ।

No. 47—I, Pushpam Kishore, S/o Shri Chandra Shekhar Prasad Mahto Mauza+vill.-Bhardiha, Post+Thana-Bhagwanpur, Dist.-Begusarai, (Bihar), Affidavit No.-13982 dated 21-09-2023 now onwards shall be known as Dr. Pushpam Kishore.

Pushpam Kishore.

सं0 48—मैं पूर्ण, पिता सुनील कुमार, पता आदर्शनगर उत्तर, न्यु सिविल कोर्ट, जहानाबाद, बिहार, पुलिस स्टेशन-जहानाबाद शपथपत्र संख्या 12464 दिनांक 21.12.2023 के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि आज से मैं, पूर्ण कुमार के नाम से जाना जाऊंगा। वह यह कि इस शपथपत्र के आधार पर मेरा नाम पूर्ण से बदलकर पूर्ण कुमार कर दिया जाये।

पूर्ण ।

No. 48—I, Purna, Father-Sunil Kumar, Address-Adarsh Nagar North of New Civil Court Jehanabad Bihar, P.S-Jehanabad declare through affidavit No-12464 dated 21-12-23 that from today onwards I, will be known as Purna Kumar. This is that on the basis of this affidavit my name should be changed from Purna to Purna Kumar.

Purna.

No. 56--- I, Narendra Narayan Yadav, Son of late Siyaram Yadav Resident of village - Balatol, Post office- Nayatola Puraini, District- Madhepura, Bihar-852116 Declare vide Affidavit No-6496/2023 dated-20.12.2023 that in my Daughter Mausam intermediate Document (10+2) Roll No-7616893 year 2011, My Name in mentioned N N Yadav which is incorrect whereas my correct name is Narendra Narayan Yadav I shall be known by this name for all Purpose.

Narendra Narayan Yadav.

No. 57---I, Baby Rani, wife of Narendra Narayan Yadav, Resident of Balatol, Kurshandi, District Madhepura, Bihar-852210 Declare vide Affidavit No 6497/2023 Dated-20.12.2023 that in my daughter Mausam Intermediate (10+2) Document Roll No-7616893 Year 2011 My Name is Mentioned Baby Yadav which is incorrect whereas my correct name is Baby Rani. I shall be known by this name for all purpose.

Baby Rani.

No. 58--- I SHILPI PATHAK D/O- BRAJ BIHARI TIWARY W/O- RAJESH PATHAK R/O- BANK COLONY LANE NO-8, GOLA ROAD, DANAPUR, P.S- DANAPUR, DIST.-PATNA (BIHAR) 801503 VIDE AFFIDAVIT NO-3951 DATED- 02-12-2023 NOW I WILL BE KNOWN AS SHILPI TIWARY.

SHILPI PATHAK .

No. 59---I, MIRA PANDEY, Wife of YAGYANATH PANDEY, Resident OF Ravi Nagar, Loharpatty Road, Kishanganj have changed my name as MEERA DEVI vide affidavit no. 3792 Dated:- 20 APRIL, 2023 Before Notary/magistrate of district court Kishanganj Bihar Pin Code:- 855108.

MIRA PANDEY.

No. 60--- I, IBRAT Jaya W/o Nasir Hussain Khan R/o House No. G2 Haque Complex Golakpur PO-Mahendru PS-Pirbhore Patna-6 Vide affidavit No. 10214 dated 11.11.2023 have changed my name from Ibrat Zia to Ibrat Jaya for all future purposes.

IBRAT Jaya.

सं० 69—मैं, मोहम्मद साकिब, पुत्र मोहम्मद मुस्तकिम, कुरुडीह, पो० बदलूचक, थाना गोराडीह, जिला भागलपुर, पिन 813105 का निवासी हूँ। मेरे आधार कार्ड सं० 2448 1234 2789 में मेरा नाम के साथ पिता का नाम जोड़ दिया गया है जो गलत है। मेरा सही नाम मोहम्मद साकिब है।

मोहम्मद साकिब।

No. 69---I, Md. Saquib, S/o Md. Mustaqueem, kurudih, P.O. Badluchak, P.S. Goradih, Distt Bhagalpur, Pin code 813105. In my aadhar card No. 244812342789 my name is added with father which is wrong. My correct name is Md. Saquib. Affidavit No. 9834, Dated-02-11-2023.

Md. Saquib.

सं० 70—मैं नबी रसूल अंसारी (NABI RASUL ANSARI) पिता-शहाबुद्दीन अंसारी, पता-ग्राम-सुरहिया, पो०+थाना-बड़हरिया, जिला-सिवान, बिहार-841232 शपथ पत्र सं०-1459, दिनांक-21.11.2023 द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे पेंशन स्कीम प्रमाण-पत्र में मेरा नाम नबी अहमद (NABI AHMED) दर्ज है जो गलत है। मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट में मेरा नाम नबी रसूल अंसारी (NABI RASUL ANSARI) जो सही है। नबी अहमद (NABI AHMED) और नबी रसूल अंसारी (NABI RASUL ANSARI) दोनों नाम मेरा ही नाम है जो मैं स्वयं हूँ। आगे सभी कार्य हेतु मैं नबी रसूल अंसारी (NABI RASUL ANSARI) के नाम से ही जाना जाऊंगा।

नबी रसूल अंसारी।

सं० 71—मैं सुनीता कुमारी (Sunita Kumari) पति नितेश कुमार साकिन मुहल्ला-सैदपुर, थाना-गोपालपुर, जिला-भागलपुर, वर्तमान पता मुहल्ला आदमपुर घाट रोड, थाना-आदमपुर जोगसर भागलपुर, बिहार शपथ पत्र सं. 481 दिनांक 06.11.2023 द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम अंश (Ansh) दर्ज है। उसके नाम के साथ शॉडिल्य (Shandilya) जोड़कर सभी कार्यों हेतु वह अब अंश शॉडिल्य (AnshShandilya) के नाम से जाना जायेगा।

सुनीता कुमारी (Sunita Kumari).

No. 72---I, Dipti D/o Dhrub Prasad W/o Yashwant Mehra R/o B-402, Amar Kunj Apartment, Vivekanand Marg, N.S. K. Puri, Patna-800013 (Bihar) Vide Affidavit no. 5321 date 6.12.23. After Marriage, I am known as Dipti Mehra.

Dipti.

No. 73---I, Mahesh Prasad Rai, S/o Mahabir Prasad Rai, R/o Dwarika Puri Colony, Dr. Rajendra Prasad Road, Bhagalpur, Bihar-812002 do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit no. 17 dated 11.10.2023 that my name is mentioned in my Birth Certificate as Mahesh Prasad and in Voter ID Card as Mahesh Goyenka which is wrong. As per Aadhar Card my Correct name is Mahesh Prasad Rai and from now, I will be known as Mahesh Prasad Rai for all future purposes.

Mahesh Prasad Rai.

No. 86---Arbind Kumar Choudhary S/o Late Satya Narayan Choudhary, R/o Bhatta Durgabari, Jhanda Chowk, P.S.-K- Hatt. Distt.- Purnia, Bihar-854301. do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1413 dt. 15.12.23 that my name is written as Arvind Choudhary in my Son's Rishav Choudhary CBSE XIIth Educational documents Which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Arbind Kumar Choudhary. From now I will be known as Arbind Kumar Choudhary for all future purposes.

Arbind Kumar Choudhary.

No. 87---I Arbind Kumar Choudhary S/o Late Satya Narayan Choudhary, R/o Bhatta Durgabari, Jhanda Chowk, P.S.-K- Hatt, Distt.- Purnia, Bihar-854301 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1412 dt. 15.12.23 that my name is written as Arvind Kumar Choudhary in my Son's Rishav Choudhary CBSE Xth Educational documents Which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Arbind Kumar Choudhary. From now I will be known as Arbind Kumar Choudhary for all future purposes.

Arbind Kumar Choudhary.

सं० 88—मैं मुजफ्फर हुसैन खान (Muzaffer Husain Khan) आधार कार्ड सं.—947786513542 पिता—मंजूर हुसैन खान (Manzoor Husain Khan) निवासी—हुसैन मंजिल दीवान मोहल्ला, पानदरीवा गली, पोस्ट—झाउगंज, थाना—खाजेकलां, पटना सिटी, पटना—800008 (बिहार) शपथ पत्र सं.—7562, दिनांक 14.11.2023, द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र Mohammad Abbas के दसवीं एवं बारहवीं प्रमाण पत्रों में मेरा नाम Muzaffer Husain दर्ज हो गया है जो गलत है। मेरा सही नाम Muzaffer Husain Khan है। मैं इसी नाम से जाना जाता हूँ।

मुजफ्फर हुसैन खान।

सं० 89—मैं गजाला परवीन (Ghazala Perveen) आधार कार्ड सं.—429714377369 पति—मुजफ्फर हुसैन खान (Muzaffer Husain Khan) निवासी—हुसैन मंजिल दीवान मोहल्ला, पानदरीवा गली, पोस्ट—झाउगंज, थाना—खाजेकलां, पटना सिटी, पटना—800008 (बिहार) शपथ पत्र सं.—7563, दिनांक 14.11.2023, द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र Mohammad Abbas के दसवीं एवं बारहवीं प्रमाण पत्रों में मेरा नाम Ghazala Parveen दर्ज हो गया है जो गलत है। मेरा सही नाम Ghazala Perveen है। मैं इसी नाम से जानी जाती हूँ।

गजाला परवीन।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 45—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0— 4/एफ1—49/2014(अंश फाइल)220404/2018—831

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

संकल्प

15 दिसम्बर 2023

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा :-

वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय :-

श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति में विभिन्न कोटि के कुल स्वीकृत 93 पदों में से 21 पदों को यथावत रखते हुए शेष 72 पदों को प्रत्यर्पित कर बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होनेवाली "दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना" हेतु 33 पदों के सृजन के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत

दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना का संचालन बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में किया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है जो निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के द्वारा निबंधन संख्या 2332 दिनांक 11.02.2009 के तहत विधिवत निबंधित है।

2. दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना के द्वारा श्रम एवं नियोजन के मुद्दों पर अध्ययन, शोध, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य किया जायेगा। संस्थान राज्य में श्रम संबंधी आंकड़ों का संकलन करेगा तथा आंकड़ों का अध्ययन कर श्रमिक वर्ग की बेहतरी हेतु कार्य योजना का निर्माण करेगा। संस्थान विभाग के पदाधिकारियों, कर्मचारियों के क्षमता विकास हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। संस्थान श्रम कानूनों के प्रवर्तन से जुड़ी अद्यतन जानकारी, श्रम कानूनों में अपेक्षित बदलावों, संशोधन इत्यादि विषयों पर विभाग के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। संस्थान मांग एवं आपूर्ति के आधार पर राज्य के युवकों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से नये विषयों में प्रशिक्षण की अनुशंसा करेगा। संस्थान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा करेगा तथा समय के अनुसार योजनाओं में अपेक्षित बदलावों की अनुशंसा विभाग को करेगा। वृहद् रूप में यह संस्थान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण के विषय पर राज्य सरकार हेतु "ThinkTank" का कार्य करेगा।

3. बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति अंतर्गत विभागीय ज्ञापांक 283 दिनांक 05.03.2014 द्वारा विभिन्न कोटि के कुल सृजित 93 पदों में से 21 पदों को यथावत रखते हुए शेष 72 पदों को प्रत्यर्पित (एनेक्सर-1 संलग्न) होने से कुल राशि रु0 1,32,00,000/- (एक करोड़ बत्तीस लाख रुपए) की बचत होगी तथा बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होनेवाली दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना हेतु 33 पदों के सृजन (एनेक्सर-2 संलग्न) पर होनेवाली अनुमानित वार्षिक व्यय रु0 3,38,29,668/- (तीन करोड़ अड़तीस लाख उनतीस हजार छः सौ अड़सठ रुपए) है।

4. संबंधित राशि की व्यय मुख्य शीर्ष-2230 श्रम रोजगार एवं कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम लघु शीर्ष-001 निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष-0106 दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान मांग सं0 26 से विकलनीय होगा।

5. संबंधित राशि की निकासी दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

6. उपरोक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० बी. राजेन्द्र, प्रधान सचिव।

एनेक्सर-1

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति अंतर्गत पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के कुल 93 पदों में से विभिन्न कोटि के प्रत्यर्पित किए जानेवाले कुल 72 पदों की विवरणी :-

क्रम सं०	पदनाम	पदों की संख्या	अनिवार्य अहर्ता
1	2	3	4
1	परामर्शी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	01 संविदा पर	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री तथा कम-से-कम 5 साल का कार्य अनुभव। मानदेय सरकारी नीति के अनुसार या 40,000-50,000/- रुपए मासिक।
2	परामर्शी चिकित्सा	01 संविदा पर	एम०बी०बी०एस० तथा स्नातकोत्तर डिग्री/सेवानिवृत्त अपर निदेशक स्वास्थ्य या समकक्ष (अधिकतम 70 वर्ष) मानदेय सरकारी नीति के अनुसार 40,000 - 50,000/- रुपए मासिक।
3	परामर्शी, श्रम कल्याण	01 संविदा पर	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा एवं 5 साल का कार्य अनुभव मानदेय सरकारी नीति के अनुसार या 40,000-50,000/- रुपए मासिक
4	परामर्शी, अनुश्रण एवं मूल्यांकन	01 संविदा पर	बी०टेक० (आई टी) या एम०सी०ए० डिग्रीधारी + 5साल का कार्य अनुभव मानदेय- 40,000-50,000/- रुपए मासिक।
5	उप परामर्शी -सह-गुणवत्ता प्रबंधक	03 संविदा पर	एम०बी०ए०/ प्रबंधन में डिप्लोमा तथा 3 साल का कार्य अनुभव। मानदेय 30,000-40,000/- रुपए मासिक या सरकारी नीति के अनुसार
6	कार्यकारी सहायक	65 संविदा पर	शैक्षणिक योग्यता:- इंटरमीडिएट एवं डी०सी०ए० मानदेय- 12,000/- (बारह हजार रुपये) मासिक
	कुल	72 पद	

आदेश से,
डॉ० बी. राजेन्द्र, प्रधान सचिव।

एनेक्सर-2

दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना हेतु 33 विभिन्न पदों का सृजन निम्नवत किया जाता है:-

क० सं०	पद का नाम	सृजित पदों की संख्या	पद की प्रकृति	अनिवार्य अहर्ता	वेतन स्तर/ मानदेय
1.	महानिदेशक	01	स्थायी	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग (पदेन)।	
2.	निदेशक	01	स्थायी	श्रमायुक्त, बिहार (पदेन)।	
3.	संयुक्त निदेशक	02	स्थायी	बिहार श्रम सेवा संवर्ग के संयुक्त श्रमायुक्त एवं बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक। इस सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उप श्रमायुक्त के वेतनमान से अन्यून अथवा समकक्ष स्तर के बिहार श्रम सेवा/बिहार नियोजन सेवा/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा	Level-13

				के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों, संविदा पर ।	
4.	प्रशासी पदाधिकारी	01	स्थायी	बिहार श्रम सेवा संवर्ग के उप श्रमायुक्त। इस सेवा संवर्ग के पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में सहायक श्रमायुक्त के वेतनमान से अन्यून अथवा समकक्ष स्तर के बिहार श्रम सेवा/बिहार नियोजन सेवा/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों, संविदा पर।	Level-12
5.	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	01	स्थायी	बिहार श्रम सेवा संवर्ग के सहायक श्रमायुक्त। इस संवर्ग के पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में श्रम अधीक्षक वेतनमान से अन्यून अथवा समकक्ष स्तर के बिहार श्रम सेवा/बिहार नियोजन सेवा/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों, संविदा पर ।	Level-11
6.	प्रोग्राम पदाधिकारी	01	स्थायी	बिहार श्रम सेवा संवर्ग के श्रम अधीक्षक। इस संवर्ग के पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में इनके वेतनमान से अन्यून अथवा समकक्ष स्तर के बिहार श्रम सेवा/बिहार नियोजन सेवा/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों, संविदा पर ।	Level-9
7.	लेखा पदाधिकारी	01	स्थायी (संविदा पर)	बिहार लेखा सेवा/बिहार वित्त सेवा/बिहार अंकेक्षण सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी संविदा पर जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों।	Level-9 68,000 (मानदेय)
8.	लेखापाल	01	स्थायी (संविदा पर)	महालेखाकार का कार्यालय/वित्त विभाग के सेवानिवृत्त अंकेक्षक संविदा पर, जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों।	Level-5 40,000 (मानदेय)
9.	सांख्यिकी पदाधिकारी	01	स्थायी (संविदा पर)	बिहार सांख्यिकी सेवा के सेवानिवृत्त सांख्यिकी पदाधिकारी संविदा पर, जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों।	Level-9 68,000 (मानदेय)
10.	सहायक प्रोग्राम पदाधिकारी	03	स्थायी	बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ।	Level-7
11.	निम्न वर्गीय लिपिक	06	स्थायी	श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक।	Level-3
12.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	स्थायी (संविदा पर)	राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अध्ययन, शोध संस्थान के सेवा निवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष संविदा पर (जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों।	Level-6 45,000 (मानदेय)
13.	पुस्तकालय सहायक	01	स्थायी (संविदा पर)	राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अध्ययन, शोध संस्थान के सेवानिवृत्त पुस्तकालय सहायक संविदा पर (जिनकी आयु 65 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों।	Level-4 35,000 (मानदेय)

14.	सिनियर फेलो	02	स्थायी (संविदा पर)	सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय प्राध्यापक संविदा पर। जिनकी आयु 67 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों, (समाजशास्त्र एवं लेबर लॉ की जानकारी अपरिहार्य होगी)।	Level-13
15.	एसोसिएट फेलो	04	स्थायी (संविदा पर)	सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय सह-प्राध्यापक संविदा पर। जिनकी आयु 67 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों (समाजशास्त्र एवं लेबर लॉ की जानकारी अपरिहार्य होगी)।	Level-11 87,000 (मानदेय)
16.	फेलो	06		सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापक संविदा पर। जिनकी आयु 67 वर्ष प्राप्त करने में कम से कम 02 वर्ष शेष हों (समाजशास्त्र एवं लेबर लॉ की जानकारी अपरिहार्य होगी)।	Level-9 68,000 (मानदेय)

आदेश से,
डॉ० बी. राजेन्द्र, प्रधान सचिव।

सं० कारा/नि०को०(मुक०)—09—05/2016—587

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

22 जनवरी 2024

श्री देवेन्द्र प्रसाद, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा के विरुद्ध प्रतिवेदित वित्तीय अनियमितता, गबन एवं प्रशासनिक विफलता तथा भ्रष्टाचार के आरोप के लिए निगरानी थाना काण्ड संख्या-26/12, दिनांक 24.02.2012 धारा-420/409/467/468/471/120 (बी०) भा०द०वि० एवं धारा-13 (2) सह-पठित धारा-13 (1) (सी)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 दर्ज किया गया।

2. श्री देवेन्द्र प्रसाद के मंडल कारा, सहरसा में पदस्थापन के दौरान मुलाकाती बेरीकेडिंग का निर्माण कार्य, दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण, कारा में चापाकल अधिष्ठापन योजना, सरकारी आवास मरम्मत योजना, सामग्री आपूर्ति योजना, पम्पिंग सेट क्रय योजना, सिलाई मशीन/कम्प्यूटर/टाईप राईटर क्रय योजना, वर्ष-2007-08 में कुल 23 कक्षपालों के बिना वर्दी आपूर्ति किये 3000/-रु० का गलत भाउचर पास करना, जमीन बंदोबस्ती योजना, टाटा सूमो वाहन संख्या-BR19-7386 के संबंध में भाड़े का भुगतान, जो राजदूत मोटरसाईकिल का नम्बर है, गौशाला से 18 एसबेस्टस गायब कर देना आदि गबन, वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से संबंधित निगरानी विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप, जिसमें एक बड़ी सरकारी राशि निहित है, के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 (3) के प्रावधानों के तहत श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित किया गया।

3. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित आरोप पत्र के आलोक में श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-187 दिनांक-11.01.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. उपरोक्त प्रतिवेदित आरोपों के अतिरिक्त श्री देवेन्द्र प्रसाद के मंडल कारा किशनगंज में पदस्थापन के दौरान जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 1114/सी०, दिनांक 18.09.2013 तथा ज्ञापांक 1279/सी०, दिनांक 31.10.2013 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध कतिपय आरोपों यथा कारा के अंदर जादू-टोना का कार्य कराये जाने, महिला बंदियों के साथ दुर्व्यवहार, कारा चिकित्सक पर अनुचित दबाव, अनधिकृत अनुपस्थिति एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये।

5. श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध मंडल कारा, सहरसा में पदस्थापन के दौरान प्रतिवेदित वित्तीय अनियमितता, गबन एवं प्रशासनिक विफलता तथा भ्रष्टाचार के आरोप के लिए दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या-26/12, दिनांक 24.02.2012 धारा-420/409/467/468/471/120 (बी०) भा०द०वि० एवं धारा-13 (2) सह-पठित धारा-13 (1) (सी)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 तथा उनके मंडल कारा, किशनगंज में पदस्थापन के दौरान कारा के अंदर जादू-टोना का कार्य कराये जाने, महिला बंदियों के साथ दुर्व्यवहार, कारा चिकित्सक पर अनुचित दबाव, अनधिकृत अनुपस्थिति एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 673 दिनांक 05.02.2014 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबित किया गया तथा निलंबनावस्था में उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया।

6. श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध पूर्व से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 187 दिनांक 11.01.2013 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही के साथ मंडल कारा, किशनगंज से संबंधित आरोपों के संबंध में गठित पूरक आरोप पत्र को सम्मिलित कर संचालन पदाधिकारी को उक्त बिन्दुओं पर भी जाँच करने का आदेश विभागीय संकल्प ज्ञापांक 843 दिनांक 13.02.2014 द्वारा संसूचित किया गया।

7. श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही के जॉचोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त, विभागीय जॉच, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के पत्रांक 125 दिनांक 24.04.2014 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

8. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधान के तहत विभागीय पत्रांक 4847 दिनांक 05.09.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति श्री प्रसाद को उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। तद्आलोक में श्री देवेन्द्र प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन दिनांक 24.11.2014 समर्पित किया गया।

9. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध गठित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के आलोक में उनके द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए श्री प्रसाद के विरुद्ध "सेवा से बर्खास्तगी का दंड" अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया। प्रस्तावित उपर्युक्त दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1113 दिनांक-19.02.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई। तद्आलोक में सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1096 दिनांक-17.07.2015 द्वारा उपर्युक्त दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति संसूचित की गई।

10. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6285 दिनांक 13.10.2015 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा/किशनगंज के विरुद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :-

" सेवा से बर्खास्तगी का दंड " ।

11. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6285 दिनांक 13.10.2015 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री देवेन्द्र प्रसाद द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 23.11.2015 समर्पित किया गया। श्री प्रसाद के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6649 दिनांक-29.10.2016 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

12. उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री देवेन्द्र प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No-934/2016 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.08.2017 को पारित आदेश निम्नवत् है :-

" The order in the disciplinary proceeding is resting entirely on the charges which are also the foundation for the vigilance case instituted against the petitioner. Considering that these charges, which are basically a reflection of alleged financial irregularity committed by the petitioner and is subject matter of vigilance case which is pending consideration before the competent criminal court, I am not persuaded to interfere with the order passed by the disciplinary authority for whatsoever be the evidence relied upon by the disciplinary authority to pass the order of dismissal, are the evidence before the criminal court for establishing the charge. Besides, the other circumstance which does not persuade this Court to express any opinion for the present is, that the petitioner has not bothered to respond to the charges relating to financial irregularities simply on the plea of non-supply of documents when it is the vigilance report together with its enclosures which is the basis for the disciplinary proceeding.

Since the order on the disciplinary proceeding is to be tested on the touchstone of preponderance of probability, for the present no indulgence is called for. The petitioner shall be at liberty to take recourse to such remedy as available to him in law, in case the criminal case ultimately draws in his favour. The writ petition is dismissed. "

13. C.W.J.C. No-934/2016 में दिनांक 16.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेश के विरुद्ध श्री देवेन्द्र प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में L.P.A. No.-1302/2017 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 19.10.2023 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका कार्यशील अंश निम्नवत् है :-

" We find the enquiry to be flawed beyond repair and no finding of guilt could have been held on the basis of the Vigilance Report alone. If the department or the Government was of the opinion that the allegations are inextricably connected with the Vigilance Case then they should have waited till the criminal case concluded. Having initiated a disciplinary inquiry; without proper proof being adduced, there cannot be a finding of guilt entered and a penalty imposed on that count. We find absolutely no reason to uphold the findings in the

enquiry since it is without any evidence and the Disciplinary Authority also could not have found the delinquent to be guilty on the basis of either the findings in the inquiry or the evidence thereat; which we found to be totally absent.

We set aside the enquiry and the punishment imposed. The appellant would be entitled to be restored to his position as on the date of his suspension and also entitled to full back wages during his suspension till retirement and pension thereafter. There is no question of a fresh enquiry since the appellant has superannuated. We make it abundantly clear that our judgment shall have no bearing on the criminal trial pending; if it is so pending.

The Letters Patent Appeal is allowed leaving the parties to suffer their respective costs. Interlocutory Application(s), if any, shall stand closed ”

14. L.P.A. No.-1302/2017 (In C.W.J.C. No-934 / 2016) देवेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 19.10.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, किशनगंज के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6285 दिनांक 13.10.2015 द्वारा अधिरोपित “सेवा से बर्खास्तगी का दंड ” को निरस्त किया जाता है तथा श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, किशनगंज के निलम्बन की तिथि 05.02.2014 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.08.2019 तक के अवधि का वेतन/भत्ते (निलम्बन अवधि के दौरान दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता का समायोजन कर) का भुगतान किये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही श्री प्रसाद को नियमानुसार सेवान्त लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 45—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>